

महत्वपूर्ण एवं खास

खेल अकादमी बिलासपुर हेतु एथलेटिक्स एवं कबड्डी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 15 से 20 मई तक रायगढ़ स्टेडियम में आयोजित होगा जिला स्तरीय चयन ट्रायल

रायगढ़। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र, बहतराई, बिलासपुर में एथलेटिक्स (बालक/बालिका) एवं कबड्डी बालिका खिलाड़ियों के लिए खेल अकादमी (आवासीय) प्रारंभ की जाएगी। जिसमें एथलेटिक्स में 25 बालक एवं 25 बालिका तथा कबड्डी में 30 बालिका खिलाड़ियों का चयन अंतिम रूप से किया जाना है। जिसके जिला स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन रायगढ़ स्टेडियम में 15 से 20 मई 2022 के मध्य आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन ट्रायल के माध्यम से चयनित खिलाड़ियों का चयन कर, राज्य स्तरीय चयन ट्रायल हेतु भेजा जाएगा। खेल अकादमी संचालन नियम 2014 के अनुरूप प्रतिभागियों का बीटी टेस्ट एवं खेल के आधार पर कौशल टेस्ट लिया जाएगा। चयन ट्रायल हेतु खिलाड़ियों की आयु 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में 13 से 17 वर्ष होना अनिवार्य है। बिलासपुर अकादमी में प्रवेश हेतु ऐसे खिलाड़ी जो एथलेटिक्स एवं कबड्डी में रुचि रखते हैं तथा बिलासपुर में नियमित रूप से रहकर खेल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। जिले के ऐसे खिलाड़ी बालक-बालिकाएं जो बिलासपुर की खेल अकादमी में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं वे अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर खेला का नाम अपने अभिभावक का सहमति पत्र की जानकारी के साथ सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग, रायगढ़ में पंजीयन करा सकते हैं।

जिंदल कंपनी एरिया से लोहे का पाईप चोरी करते पकड़ा गया आरोपी, भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। थाना तमनार अन्तर्गत ग्राम बुडिया में जिंदल कंपनी एरिया में आज दिनांक 10.05.2022 को जिंदल कंपनी के सुरक्षागार्ड की पेट्रोलिंग ने लोहे का पाईप चोरी करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम खीर सागर सिदार निवासी ग्राम रेगांव का रहने वाला बताया। कम्पनी के सिस्कोरिटी सुपरवायजर विल्सन लकड़ा थाना तमनार में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना तमनार में आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 172/2022 धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तमनार पुलिस द्वारा आरोपी खीर सागर सिदार के पेश करने से चोरी गई मशरूका लोहे पाईप की टुकड़ा कीमत 20,000 रुपये को गवाहों के समक्ष जम किया गया। आरोपी खीर सागर सिदार पिता स्व. अभय लाल उम्र 37 वर्ष ग्राम रेगांव थाना तमनार जिला रायगढ़ के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी खीर सागर सिदार को आज दिनांक 10.05.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

जवानों पर हमले में शामिल तीन नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर (आरएनएस)। जिले में चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत थाना पामेडू से कोबरा 204 एवं जिला बल की टीम सर्चिंग पर पेदाधरमारम व एमपुर के जंगलों व पहाड़ी इलाके की ओर निकली थी। अभियान के दौरान एमपुर के जंगल से घेराभांठा कर 03 नक्सलियों माड्डी भीमा, माड्डी नंदा एवं मडकम कोसा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों के द्वारा थाना पामेडू के अन्तर्गत चित्तावागु कैप से एरिया डोमिनियन पर निकली सीआरपीफ की टीम पर 24 अप्रैल 2022 को किये गये हमले की घटना में शामिल थे। तीनों नक्सलियों के विरुद्ध थाना पामेडू में कार्यवाही उपरांत रिमाण्ड पर न्यायालय बीजापुर में आज पेश किया गया।

ग्राम धौराभांठा में जादू टोना को लेकर झगड़ा विवाद की सूचना पर ग्रामीणों के बीच पहुंचे एसडीओपी धरमजयगढ़

जन चौपाल लगाकर बताये- जादू टोना जैसे अंधविश्वास से रहें दूर

रायगढ़। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा मीडिया के माध्यम से दिनांक 08.05.2022 को थाना धरमजयगढ़ क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम धौराभांठा में गांव के एक परिवार के लोगों को टोनाही कहकर प्रताड़ित किये जाने की जानकारी मिली। जिसे गंभीरता से लेते हुए धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा थाना धरमजयगढ़ के स्टफ के साथ गांव में शांति व्यवस्था बनाये रखने के ग्राम धौराभांठा पहुंचे। गांव में "पुलिस जन चौपाल" लगाकर एसडीओपी दीपक मिश्रा द्वारा ग्रामीणों को से चर्चा किया गया। ग्रामीणों को एसडीओपी



फैलाया जा रहा है और दिनांक 18/04/22 की रात अनावेदक दोनों पिता-पुत्र घर अंदर घुसकर झगड़ा मारपीट किया गया था, बताया जिसका शिकायत आवेदन लिया गया और शिकायत पत्र पर थाना प्रभारी धरमजयगढ़ को जांच कर वैधानिक कार्यवाही का निर्देश दिया गया। एसडीओपी धरमजयगढ़ द्वारा गांववालों को बताया गया कि जादू-टोना जैसी अंधविश्वासों से दूर रहें, गांव में कोई भीमार होता है तो उसका उचित इलाज करावें, अनावश्यक झगड़ा विवाद न करें। वे बताया कि किसी को टोनाही कहना मात्र ही टोनाही प्रताड़ना के तहत अन्वयन की श्रेणी में आता है जिसमें दंड का प्रावधान है, यह एक प्रकार की समाजिक बुराई है, इससे दूर रहें। एसडीओपी धरमजयगढ़ द्वारा ग्रामीणों को चौपाल में गांव में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा जुआ, शराब या अन्य प्रकार की सूचनाएं तत्काल पुलिस को दिये जाने हेतु प्रेरित किया गया। चौपाल में टोनाही संबंधी प्राथमिकता पर भी चर्चा पर दिनांक 09.05.2022 को थाना धरमजयगढ़ में अनावेदकों के विरुद्ध अप.क्र. 77/2022 धारा 4, 5 छत्तीसगढ़ टोनाही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत अपराध अनावेदकों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर आरोपी काशीराम पण्डो (उम्र 26 वर्ष) निवासी ग्राम धौराभांठा थाना धरमजयगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक अप्रिभार पर भेजा गया है।

सारंगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एफआईआर के 3 घंटे बाद चोरी मामले में 8.23 लाख रुपये की रिकवरी

लालच में आकर फील्ड अफिसर ने की थी चोरी, पुलिस ने बिलासपुर से किया गिरफ्तार

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के कुशल दिशा निर्देशन तथा ओएसडी (पुलिस) राजेश कुकरेजा के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन पर सारंगढ़ पुलिस द्वारा टिमरलगा के फाईनेंशियल कम्पनी से चोरी हुए ₹8,23,000 को तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे रकम की बरामदगी किया गया है। आरोपी कंपनी में कार्यरत फील्ड अफसर बड़ी चालाकी से रूपयों की चोरी कर पूरे रकम को आफिस के पीछे गड्ढे में दबाकर स्वयं बिलासपुर चला गया ताकि किसी को संदेह न हो। मामले में एडिशनल एसपी लखन पटेल व सुपरविजन अधिकारी एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल से मिले महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी सारंगढ़

विवेक पाटेल द्वारा गवाहों से पूछताछ कर मौके पर उपलब्ध साक्ष्यों को जोड़ते हुए आरोपी का पता लगा लिये, पुलिस की एक टीम आरोपी को बिलासपुर से हिरासत में लेकर सारंगढ़ लाया गया जिसके बाद पूरे रकम की बरामदगी की गई है। आरोपी को आज नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। स्पन्दना स्फुर्ति फाईनेंशियल लिमिटेड में जोनल प्रबंधक के पद पर कार्यरत गौरव जैन उम्र 37 वर्ष पिता शरद कुमार जैन निवासी बुढार, पोस्ट बुढार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश द्वारा आज दिनांक 10.05.2022 के सुबह थाना सारंगढ़ आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इनकी शाखा चन्द्रपुर (टिमरलगा) में स्थित है जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। इनकी शाखा से महिलाओं को समूह लोन फायनेंस किया जाता है और मासिक रिकवरी करता है। कल दिनांक 09.05.2022 को सुबह लगभग



10:20 बजे क्षेत्रीय प्रबंधक रूपेश कुमार साहू के द्वारा इन्हें बताया गया कि सुबह जब फील्ड से वापस आफिस आया तो ब्रांच के सभी दरवाजे के ताले खुले हुये थे और जिस कमरे में बैग के अंदर दिनांक 08.05.2022 को क्लोजिंग कैश बैलेंस नगद रूपये ₹8,23,030 रखा हुआ था वह गायब है। उसके बाद में सभी कार्यरत कर्मचारी शाखा प्रबंधक फील्ड अफिसर से पूछे तो जानकारी नहीं होना बताया थाना सारंगढ़ में अज्ञात आरोपी

पर अप.क्र. 219/2022 धारा 454,380 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरम्यान थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटेल द्वारा मौके का निरीक्षण कर शाखा प्रबंधक, फील्ड अफिसर एवं अन्य स्टाफ से बारीकी से पूछताछ किया गया, घटना दिनांक को बाहर से शाखा में आये लोगों की जानकारी लिये जिसमें सभी सबूत चोरी में शाखा के ही किसी स्टाफ के संलिप्तता

की ओर इशारा कर रहे थे। तब थाना प्रभारी द्वारा सभी स्टाफ के पूरे दिन की गतिविधियों की जानकारी लिये जिसमें पता चला कि शाखा में फील्ड अफिसर का कार्य करने वाला सुनील कुमार लंबी छुट्टी के बाद वापस काम ज्वाइन किया है जो आफिस के बाद बिलासपुर चला गया था। सुनील के एकाएक बिलासपुर चले जाने पर पुलिस को एक उनके साथी कर्मचारियों को भी संदेह हुआ था। थाना प्रभारी के कहने पर कम्पनी के स्टाफ

द्वारा सुनील को शाखा आने कहा गया तो वह समय लगेगा कहकर टाल मटोल करने लगा। थाना प्रभारी विवेक पाटेल द्वारा एक टीम सुनील को बिलासपुर से लाने खाना किये गया जिसे बिलासपुर से लाकर कड़ी पूछताछ करने पर काफी रकम को देखकर लालच में आकर चोरी करना कबूल किया और रूपयों को प्लास्टिक में भरकर कपड़े वाले बैग में डालकर आफिस के पीछे बैग सहित जमीन में दबा देना बताया। आरोपी के मेमोरेण्डम पर जमीन को खोदकर पूरे रकम की रिकवरी किया गया है। आरोपी सुनील कुमार पिता चरण लाल उम्र 24 वर्ष, निवासी कैवटाडीह थाना पचपेड़ी, बिलासपुर को थाना सारंगढ़ छुट्टी के बाद वापस काम ज्वाइन किया है जो आफिस के बाद बिलासपुर चला गया था। सुनील के एकाएक बिलासपुर चले जाने पर पुलिस को एक उनके साथी कर्मचारियों को भी संदेह हुआ था। थाना प्रभारी के कहने पर कम्पनी के स्टाफ

17 विशेषज्ञ डॉक्टरों की हो रही है भर्ती, डेढ़ से दो लाख रुपये मिलेगी सैलरी

इच्छुक चिकित्सक कर सकते हैं आवेदन

रायगढ़। चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सिविल अस्पताल में 17 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर जिला प्रशासन द्वारा संविदा नियुक्ति की जा रही है। जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ के 5 पद, शिशु रोग विशेषज्ञ के 7 पद, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ के 4 व मेडीसीन स्पेशलिस्ट 1 पद तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरमजयगढ़ कापू में शिशु रोग विशेषज्ञ के 1 पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा में स्त्री रोग विशेषज्ञ के 01 पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगढ़ में शिशु रोग विशेषज्ञ व एनेस्थेसिया के एक-एक पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लैलूंगा में शिशु रोग विशेषज्ञ के एक पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमेकला में स्त्री रोग विशेषज्ञ के एक पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुसौर में शिशु रोग विशेषज्ञ के एक पद, रायगढ़ अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोईंग में स्त्री रोग विशेषज्ञ व एनेस्थेसिया के एक-एक पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार में स्त्री रोग, शिशु रोग व एनेस्थेसिया के एक-एक पद शामिल है।

www.raigarh.gov.in में उपलब्ध है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ सिविल अस्पताल व सीएचसी के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ के 1 पद, शिशु रोग विशेषज्ञ के 1 पद, मेडीसीन स्पेशलिस्ट 1 पद तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरमजयगढ़ कापू में शिशु रोग विशेषज्ञ के 1 पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा में स्त्री रोग विशेषज्ञ के 01 पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगढ़ में शिशु रोग विशेषज्ञ व एनेस्थेसिया के एक-एक पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लैलूंगा में शिशु रोग विशेषज्ञ के एक पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमेकला में स्त्री रोग विशेषज्ञ के एक पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुसौर में शिशु रोग विशेषज्ञ के एक पद, रायगढ़ अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोईंग में स्त्री रोग विशेषज्ञ व एनेस्थेसिया के एक-एक पद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार में स्त्री रोग, शिशु रोग व एनेस्थेसिया के एक-एक पद शामिल है।

खरसिया रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक निकला चोर

बिलासपुर से खरसिया आकर टेलर्स दुकान में किया चोरी, दूसरे दुकान का ताला तोड़ने में असफल चोरी किया हुआ पैंट-शर्ट, जैकेट और ताला तोड़ने में इस्तेमाल किया हुआ प्लाश जब्त



रायगढ़। दिनांक 09.05.2022 को पुलिस चौकी खरसिया के स्टाफ प्रतिदिन की तरह खरसिया मार्केट एरिया, रेलवे स्टेशन में पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच किया जा रहा था। रात्रि करीब 07.30 बजे खरसिया रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक पुलिस को देखकर छिपने लगा जिसे पुलिसकर्मी आवाज देकर बुलाये तो अपने पास रखा हुआ था। थैला खोड़कर भागा, जिसे आरक्षक व नगर सैनिक दौड़ाकर पकड़े और चौकी लेकर आये। युवक अपना

नाम चन्द्रशेखर उर्फ छोट्टू उर्फ शेखर श्रीवास पिता नंदू श्रीवास 20 साल साकिन मरीमाई मगरमारा चौक कन्निरस्तान के सामने बिलासपुर थाना सिविल लाईन बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) बताया जिसके पास थैला में रखे नये सिलाई किये पैंट, शर्ट, जैकेट के संबंध में पूछताछ करने पर युवक खरसिया आऊटर (तुरीमाठा) में एक टेलर्स दुकान में चोरी का होना बताया। आरोपी युवक बताया कि दिनांक 08.05.2022 को बिलासपुर से चाम्पा तक ट्रेन टिकट कटाकर चाम्पा आया, चाम्पा से बिना

टिकट खरसिया आया, रात्रि करीब 12-1 बजे खरसिया के आऊटर की ओर गया जहां सुनसान में एक टेलर्स दुकान का ताला प्लाश से तोड़ने लगा जिसका कुंदा सहित निकल आया तब टेलर्स दुकान के अंदर जाकर जो मिला पैंट-शर्ट, जैकेट वगैरह एक थैला में रखा और ट्रेलर्स दुकान के समीप एक अन्य दुकान का ताला तोड़ रहा था, उसी चक कुछ लोगों के आने की आहट होने पर भाग गया, रास्ते में प्लाश को फेंक दिया। दूसरे दिन दिनांक 09.05.2022 को खरसिया में दिनभर घूमा और जाकर बिलासपुर जाने स्टेशन आया था। आरोपी के मेमोरेण्डम पर राज टेलर्स दुकान से चोरी पैंट, शर्ट, जैकेट कीमत की करीब 8000 रुपये एवं घटना के संबंध में दिनांक 08.05.2022 को दिया था की जज्ञी की गई है। दिनांक 09.05.2022 को चौकी खरसिया में

सरिया लूटकांड का एक आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित का मोबाइल व बैग बरामद

रायगढ़। थाना सरिया अन्तर्गत दिनांक 07.04.2022 के दोपहर ओड़िशा जाने के मार्ग पर कोतराडिपा नाला के पास फायनेंस कम्पनी के दो कर्मचारियों से तीन अज्ञात लुटारों द्वारा नगद करीब ₹52,000 और मोबाइल लूटपाट कर फरार हुये थे, शांति आरोपियों में एक आरोपी को दिनांक 21.04.2022 को बिलासपुर पुलिस द्वारा ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट करते वक्त पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद रमजान खान उर्फ बबलू पिता मोहम्मद दुल्ला खान उम्र 51 वर्ष निवासी रजियामपुर राजगांगपुर (ओड़िशा) ने पूछताछ में अपने दो अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम देना कबूल किया साथ ही आरोपी मोहम्मद रमजान खान उर्फ बबलू द्वारा अपने साथी रमजान अली उर्फ बल्ला खान निवासी चिलटाडी बिलासपुर एवं तुलसी निवासी पागमढ़ जिला-जांजगीर चाम्पा के साथ रायगढ़ जिले सरिया थानाक्षेत्र में लूटपाट करना कबूल किया गया। बिलासपुर पुलिस से मिली जानकारी पर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल



किशोर पटेल द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर थाना सरिया के अप.क्र. 75/2022 धारा 392 IPC में आरोपी रमजान खान उर्फ बबलू की गिरफ्तारी के लिये माननीय न्यायालय में आवेदन लगाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रमजान खान उर्फ बबलू का प्रोडक्शन वारंट जारी किये जाने पर सरिया पुलिस द्वारा बिलासपुर केंद्रीय जेल से आरोपी को लेकर रायगढ़ कोर्ट में पेश कर आरोपी का एक दिवस पुलिस रिमांड लिया

गया। आरोपी रमजान खान उर्फ बबलू से सरिया पुलिस द्वारा कोतराडिपा नाला के पास फायनेंस कम्पनी के दो कर्मचारियों से लूटपाट के संबंध में पूछताछ करने आरोपी बताया कि पहले भी लूटपाट के वारदात में जेल जा चुका है। सेन्ट्रल जेल में इसे बल्ला खान और तुलसी मिले थे तीनों बाहर निकलकर फिर से लूटपाट की प्लानिंग किये। बल्ला खान सारंगढ़, सरिया इलाके को अच्छे से जानना बताया और उसी ने अहम भूमिका रही है।

दोनों को सरिया बुलाया, तब प्लानिंग के साथ तीनों आकर कोतराडिपा नाला के पास लूटपाट कर बरमेकला रास्ते मोटर सायकल से भागे, रास्ते में हेडस्पाली के पास प्रार्थी के बैग, मोबाइल को छिपा दिये थे। पुलिस आरोपी के मेमोरेण्डम , आरोपी के निशानदेही पर बैग, मोबाइल की जज्ञी किया गया है। आरोपी रमजान खान उर्फ बबलू द्वारा फरार आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी गई है, जिस पर शीघ्र पुलिस पार्टी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये खाना होगी। गिरफ्तार आरोपी का पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के पश्चात आरोपी को आज न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड लिया गया और आरोपी को केंद्रीय जेल दाखिल करने पुलिस टीम बिलासपुर के लिये खाना किया गया है। आरोपी गिरफ्तार, जज्ञी कार्यवाही में थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल, प्रधान आरक्षक भुनेश्वर पंडा, आरक्षक दिनेश चौहान थाना सरिया एवं मिन्केनन पटेल थाना डोंगरीपाली की अहम भूमिका रही है।

14545 पर कॉल कर रायगढ़वासी ले सकते हैं 13 सेवाओं की घर पहुंच सुविधा

जन्म, मृत्यु, विवाह एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जैसे सेवाओं का ले सकते हैं घर बैठे लाभ

रायगढ़। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से हितग्राही 14545 पर कॉल कर कर जन, मृत्यु, विवाह एवं स्थायी निवास सहित 13 प्रकार की सेवाओं का घर पहुंच लाभ ले रहे हैं। यह योजना नगर निगम रायगढ़ में भी शुरू हो गयी है। मुख्यमंत्री मितान योजना से जनसामान्य को अन्य कार्यों को छोड़कर दस्तावेज बनाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत सेवाओं के लिए मितान

टोल फ्री नंबर 14545 एक कॉल करने पर मितान घर पहुंच रहे हैं। सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जरूरी दस्तावेजों का स्कैन कर एक दस्तावेज बनाने उपरांत मितान द्वारा उसे घर पहुंचाया जा रहा है। मितान योजना की सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को आसानी से कई प्रकार की सेवाएं घर बैठे ही मिल सकेंगी। वर्तमान में 14 उपलब्ध होंगी, जिसका शीघ्र ही पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा और अन्य सेवाएं भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी। प्रारंभ में इस योजना अन्तर्गत जन्म प्रमाण पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं की घर पहुंच सुविधा मिल रही है।

समस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में करें निराकरण-कलेक्टर

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने जिले में गत दिनों आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को आवेदनों के प्राथमिकता से समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने राशन कार्ड, बिजली, पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने शासन द्वारा हाल ही में नगर निगम क्षेत्रों में शुरू की गयी मितान योजना के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली।

उन्होंने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्राप्त हो रहे आवेदनों के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी कर आवेदक के घर पहुंचवाने के निर्देश दिए तथा आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा को इस प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग के लिए कहा। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत स्कूल, आश्रम-छात्रावास, आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्रों में रनिंग वॉटर सप्लाई के कार्यों की भी समीक्षा करते हुए शेष बचे कार्यों के लिए पीएचई द्वारा तैयार किए डीपीआर के संबंध में जानकारी ली। बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मिश्र ने सभी अधिकारियों



को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर उसका निराकरण करते जाएं। उन्होंने जिला अधिकारियों को उनके विसाखण्ड तथा ग्राम स्तरीय संस्थाओं के नियमित निरीक्षण करने तथा वहां कार्यों के संचालन की समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में ग्राम सचिवालय लगाये जायेंगे। जिसमें ग्राम स्तर के विभिन्न विभागों के कर्मचारी एक साथ एक दिन संबंधित गांव में उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करेंगे। उन्होंने राजकीय

युवा मितान क्लब के सदस्यों हेतु प्राप्त नामों के वेरीफिकेशन कर क्लब गठन की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर जनचौपाल व लोक सेवा गार्ड के तहत लंबित आवेदनों पर भी चर्चा की गयी। जिन विभागों के आवेदन लंबित उनके कारणों की समीक्षा करते हुए जल्द निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में डीएफओ रायगढ़ सुशी स्थायलो मंडावी, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरुवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।